

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.09.2021

**थाना लोटन पुलिस द्वारा अलप्राजोलम टेबलेट .5 एमजी टेबलेट के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह थाना लोटन, के नेतृत्व में कल दिनांक 17.09.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम ठोठरी तिराहे के पास थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र सुरेश कुमार ग्राम जनकपुर कोठी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के पास से नियमानुसार जामा तलाशी के उपरांत 300 गोली नशीली दवा अलप्राजोलम टेबलेट .5 एमजी बरामद किया गया । इस अपराध हेतु अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/2021 धारा 8/21NDPS एक्ट पंजीकृत कर ,आवश्यक कार्यवाही करते हुये ,आज दिनांक 18.09.2021 को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तारी स्थल** –ग्राम ठोठरी तिराहे के पास थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तारी का समय** - 18.15 बजे ।

**बरामदगी-** 300 गोली नशीली दवा अलप्राजोलम टेबलेट .5 एमजी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अर्जुन कुमार पुत्र सुरेश कुमार ग्राम जनकपुर कोठी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर ।

## सराहनीय कार्य दिनांक 18.09.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-18-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 316 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 85 वाहनों का चालान कर ₹ 92,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

## एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 02 शोहदे धरे गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना बासी व खेसरहा में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 02 शोहदे पकड़े गये । पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया ।